



ICRA

ICRA Limited

June 5, 2021

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001, India
Scrip Code: 532835

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,
Plot no. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051, India
Symbol: ICRA

Dear Sir/Madam,

Sub.-: Notice for transfer of equity shares to the Investor Education and Protection Fund Authority

ICRA Limited (the “**Company**”) is required to transfer such shares corresponding to the dividend for the financial year 2013-14 in respect of which members have not claimed dividend for seven consecutive years from the said financial year to the Investor Education and Protection Fund (“**IEPF**”) Authority.

Adhering to the various requirements set out in Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the “**Rules**”), the Company has communicated individually vide letter dated June 3, 2021 to the concerned members whose equity share(s) is/are liable to be transferred to the IEPF Authority under the said Rules during the financial year 2021-22 for taking appropriate action(s).

The Company has uploaded full details of the unclaimed dividend and the shares due for transfer to the IEPF Authority on its website at <https://www.icra.in/InvestorRelation/ShowInvestorCommunicationReport/?Id=465&Title=Corporate%20Announcements&Report=ICRA>.

In terms of the Rules, the due date of transfer of shares (in respect of dividends remaining unclaimed for seven consecutive years) to the IEPF Authority shall be September 19, 2021. In case no valid claim in respect of equity shares is received from the members, the Company shall with the view to comply with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to the IEPF Authority by the due date.

Please find enclosed a copy of the Notice for attention of the members of the Company, in respect of transfer of equity shares to the IEPF, published in the following newspapers on June 5, 2021:

1. Financial Express
2. Jansatta

You are requested to take the above on record.

Regards,

Sincerely,

(S. Shakeb Rahman)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

Building No. 8, 2nd Floor, Tower A
DLF Cyber City, Phase II
Gurugram – 122002, Haryana
Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi 110001.

Tel.: +91.124 .4545300
CIN : L749999DL1991PLC042749

Website: www.icra.in
Email: info@icraindia.com
Helpdesk: +91 9354738909
Tel. :+91.11.23357940-45

RATING

RESEARCH

INFORMATION

Hemisphere Properties India Limited
CIN: U70101DL2005G0132162
Reg. Office Address: Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi 110001

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 and 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015 meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 14th June, 2021, inter-alia, to consider and take on record Audited Financial Statement for the quarter and year ended on 31st March, 2021. The intimation is also available on website of Company (www.hpi.co.in) and on the website of stock exchange (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

For Hemisphere Properties India Limited Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 03.06.2021
Place: New Delhi

4th Floor, Rajendra Bhawan,
Rajendra Place, New Delhi - 8
Email: Sardii@bankofbaroda.co.in

POSSESSION NOTICE
(for Immovable property)
[See rule 8(1)]

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Baroda under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 02.08.2019 calling upon the borrower Mrs Geeta Devi & Mr. Jagdish R/o E-1132 Kundli Road, Sector 11 Rohini Delhi- 85 and Mr. Rajesh and Mr. Satpal R/o House No. 74, Village- Kundli, Tehsil Karolanda District Sonapat to repay the amount mentioned in the notice being Rs.19,93,995/- as on 31.07.2019 (Rupees Nineteen Lakhs Fifty Three Thousand Nine Hundred and Ninety Five only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with rule 6 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 on this 02nd day of June of the year 2021.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda for an amount of Rs.2639888.22/- as on 19.04.2021 (Rupees Twenty Six Lakhs Thirty Nine Thousand Three Hundred Eighty Eight and paise Twenty Two only) and interest thereon plus other cost, charges and expenses, less recovery if any.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
All part and parcel of property consisting of entire First Floor without roof/terrace rights measuring 25.50 sq. meters each (total area- 51.80 sq. mts) situated at No. 46-47, H-1 Block, Sector-11 Rohini, Delhi-110085 Boundary (as per site)- North East-Service Lane, North-West-Plot no. 48, South-East-Plot no.45, South-West-Road 20ft

Date: 02.06.2021, Place: New Delhi
Authorized Officer, Bank of Baroda

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

Horticulture Department (HQ)
E Block, 3rd Floor, Dr. S.P.M. Civic Centre, J.L. Nehru Marg, New Delhi-110002

NOTICE INVITING TENDER

Online Open Tenders are invited under single stage-Two Bid system from experienced and financially sound eligible Contractors/Firms/Companies as per Tender Nos. 2021-SDMC-78663, 2021-SDMC-78665, & 2021-SDMC-78666 issued by Horticulture Deptt. (HQ) vide No. DDH/HQ/SDMC/2021-22/D/170/NIT No - 2 Dt 03.06.2021 Tender Cost Rs.1000/- Each. Estimated Amt. is upto Rs. 6.00 lacs for each work. Date of Download & Bid Submission is w.e.f. 05.06.2021 to 15.06.2021 upto 03.00PM Opening of Technical Bids 16.06.2021 at 03.30 PM. After getting themselves registered (If not registered earlier for e-tendering) Bidding Documents with detailed terms & conditions can be downloaded from the website: <http://etenders.gov.in/procure/app> OR visit SDMC website www.mcdonline.nic.in/SDMCPortal/Tenders/CRP/visit-ETENDERS. For SDMC Online tendering the helpdesk Nos. are 011-23227413 & 011-23227414 or mail to MCD-ITHELPDESK@mcd.nic.in. All details of these Tenders, Revisions, Clarifications, Corrigendum, Addendum, Time Extension etc., if any, will be uploaded on SDMC website only and will not be published in newspaper(s) separately. Interested Bidders should regularly visit the website to keep themselves regularly updated in respect of these tenders.

Dy. Director (HORT) HQ,
RO. No. 16/DPV/2020-21 011-23225334

GROVY INDIA LIMITED
CIN:L74130DL1985PLC021532
Registered office:122, 1st Floor, Vinobapuri, Lajpat Nagar, New Delhi - 110024
Email Id- grovynindia@gmail.com | Website: www.grovynindia.com | Tel. No.011-46740000

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

Sr. No.	Particulars	Quarter ending on		Corresponding Quarter ended on	Year ended 31.03.2021
		31.03.2021	31.03.2020		
1	Total Income from Operations	207.59	821.32	561.03	1455.38
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.80	125.88	-151.34	145.76
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.80	125.88	-151.34	145.76
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1.00	125.88	-151.34	143.96
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	11.50	131.65	-155.55	169.34
6	Equity Share Capital	251.44	251.44	251.44	251.44
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	808.28
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	-0.04	5.01	-6.02	5.73

Notes:
a) The above is an extract of the detailed Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and other Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The detailed Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website, viz. www.bseindia.com and at website of the Company @ www.grovynindia.com under Investors Desk.
b) The Above Audited Financial results and Segment Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 03.06.2021 and approved by the Board of Director at their meeting held on 03.06.2021

For Grovy India Limited Sd/-
Nishit Jalan
Director
DIN:02964239

Place : New Delhi
Date : 04/06/2021

IDFC
IDFC MUTUAL FUND

Notice-cum-Addendum no. 17 of 2021

Notice-cum-Addendum to the Statement of Additional Information (SAI) of IDFC Mutual Fund (the Fund)

A. Retirement of Director on the Board of IDFC Asset Management Company Limited (the AMC):
Investors are requested to note that Ms. Anita Ramachandran has ceased to be Director on Board of the AMC with effect from June 3, 2021, consequent to her retirement. Accordingly, any reference pertaining to Ms. Anita Ramachandran under section 'Details of AMC Directors' in SAI shall stand deleted.

B. Change in composition of Board of Directors of IDFC AMC Trustee Company Limited (Trustees to IDFC Mutual Fund)
Investors are requested to note that Dr. Jaimini Bhagwati, Independent Director on Board of IDFC AMC Trustee Company Limited has been designated as Associate Director of IDFC AMC Trustee Company Limited with effect from May 25, 2021.

All the other provisions of the SAI of the Fund except as specifically modified herein above, read with the addenda issued from time to time, remain unchanged.

This addendum forms an integral part of the SAI of the Fund, read with the addenda issued from time to time.

Place : Mumbai
Date : June 04, 2021

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ICRA Limited
Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749
Registered Office: B-710, Statesman House, 14B, Barakhamba Road, New Delhi 110001
Telephone No.: +91 11 23357940-45; Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com

NOTICE
(For transfer of equity shares of ICRA Limited ("the Company") to Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority"))

This Notice is published pursuant to the provisions of section 124(6) and other relevant provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended from time to time. The Rules contains the provisions for transfer of Equity Shares of the Company to IEPF Authority in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more in a prescribed manner. Members may please note that the Company is required to transfer such shares corresponding to the dividend declared for the financial year 2013-14 in respect of which members have not claimed dividend for seven consecutive years from the said financial year to the IEPF Authority as per the Rules. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually vide letter dated June 3, 2021 to the concerned members whose equity share(s) is/are liable to be transferred to the IEPF Authority under the said Rules during the financial year 2021-22 for taking appropriate action(s). The Company has uploaded full details of the unclaimed dividend and the shares due for transfer to the IEPF Authority on its website at <https://www.icra.in/InvestorRelation/ShowInvestorCommunicationReport?Id=454&Title=Corporate%20Announcements&Report=ICRA>. The members are requested to refer to the Company's website to verify the details of unclaimed dividend and the shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

In terms of the Rules, the due date of transfer of shares (in respect of dividend remain unclaimed for seven consecutive years) to the IEPF Authority shall be **September 19, 2021**. Further in terms of the Rules all benefits accruing on such shares viz. bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc. except the rights issue shall also be credited to the IEPF Authority.

The concerned member(s), holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company will issue duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF Authority as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of demat form, the Company shall transfer the shares by way of corporate action through the Depositories to the IEPF Authority. The members may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded as sufficient information and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the Demat Account of the IEPF Authority pursuant to the Rules.

In case no valid claim in respect of equity shares is received from the members, the Company shall with the view to comply with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to the IEPF Authority by the due date.

Members may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules. In case the members have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent and/or the Company at the below mentioned address.

Link Intime India Pvt. Ltd.
Noble Heights - 1st Floor, Plot No. NH-2, LSC - C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058
Phone: +91 11 4141 0592 - 94; Fax: +91 11 4141 0591
Email: delhi@linkintime.co.in

ICRA Limited
Building No. 8, 2nd Floor, Tower A, DLF Cyber City, Phase II, Gurugram - 122002
Phone: +91 124 454530
Email: investors@icraindia.com

For ICRA Limited (S. Shakeb Rahman)
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Gurugram
Date : 04.06.2021

Notification For Lost Documents

Original Property Documents in the name of Mrs. Nalini Chandra K.M. Prabhash Chandra are Lost by Union Bank of India, Mortgage Cell, Khajoor Road, Near Joshi Hospital, Karolbagh, FIR Lodged vide LR No. 366083/2021 dated 01/06/2021 at Delhi Crime Branch. Description of the lost document:-

1. ORIGINAL ALLOTMENT LETTER DATED 23/09/2009 ISSUED BY M/s GRANITE GATE PROPERTIES PVT. LTD. PART OF THE 30 COMPANIES IN FAVOR OF Mrs. NALINI CHANDRA M. PRABHASH CHANDRA.
2. ORIGINAL BUILDER BUYER AGREEMENT DATED 28/11/2009 EXECUTED BETWEEN M/s GRANITE GATE PROPERTIES PVT. LTD. & MRS. NALINI CHANDRA & Mr. PRABHASH CHANDRA.

This is to inform the Public in General to not to use or to deal or make any transaction with regard to or on basis of the documents mentioned above.

Finder of These Document please contact Branch Manager, Union Bank of India, ULP Noida, B-14, 2nd Floor, Sector 16, Noida 201301, U.P.

Authorised officer, Union Bank of India

Form No. INC-26
(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)

Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

In the matter of SOLOMON CAPITAL PRIVATE LIMITED (CIN: U65990DL2014PTC265663) having its Registered Office at 809, 8th Floor, Arunachal Building 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi - 110001

.....Applicant Company / Petitioner

NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13 (4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on **Wednesday, 02nd June, 2021** to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below: 809, 8th Floor, Arunachal Building 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi - 110001

For & on behalf of Applicant SOLOMON CAPITAL PRIVATE LIMITED Sd/-
VIKAS GARG (DIRECTOR)
Date : 05.06.2021
Place : New Delhi DIN : 00009963

SEARCH ON PESB finds no suitable candidate to head ONGC

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, June 4

GOVERNMENT HEAD-HUNTER PESB on Friday did not find anyone suitable from nine candidates, including two serving IAS officers, to head India's largest oil and gas producer ONGC.

The Public Enterprise Selection Board (PESB) interviewed nine out of the 10 candidates who had applied for the post of chairman and managing director of Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). "Keeping in view the strategic importance and vision for the company and its future, the Board did not recommend any candidate and decided to constitute a Search Committee," PESB said in a notice after interviews.

Those interviewed included senior bureaucrats Avinash Joshi and Niraj Verma. Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) director-finance Pomila Jaspal and ONGC director for technology and field services Om Prakash Singh were the other prominent names who were interviewed, as per the PESB notice.

Both bureaucrats are from the 1994 batch of IAS officers being along to the Assam-Meghalaya cadre. They are principal secretaries in the government of Assam, according to details available on the Department of Personnel and Training website.

'RBI's ₹16,000-cr special liquidity facility to Sidbi to help MFIs mitigate Covid challenges'

MITHUN DASGUPTA
Kolkata, June 4

Industry bodies were, however, 'slightly disappointed' because RBI did not announce any measure on including microfinance institutions under the Resolution Framework 2.0

THE MICROFINANCE INDUSTRY on Friday said the Reserve Bank of India's (RBI) decision to provide a special liquidity facility of ₹16,000 crore to the Small Industries Development Bank of India (Sidbi) for on-lending and refinancing purposes will provide support to microfinance institutions (MFIs) to mitigate challenges arising out of the pandemic.

Alok Misra, CEO of MFIN, the umbrella body of MFIs, expressed hope that small and medium MFIs will be "prominently" covered under on-lending and refinancing facilities by Sidbi as the industry is facing disruptions in collections due to the second wave of Covid-19.

Industry bodies were, however, "slightly disappointed" because the RBI did not announce any measure on including microfinance institutions under the Resolution Framework 2.0.

"Over the last few quarters, large MFIs have been maintaining relatively higher liquidity on the balance sheet as a precautionary measure in a Covid-impacted environment. The special liquidity facility of Sidbi will further provide additional support to MFIs in general, but particularly to small MFIs to manage their fixed obligations amidst disruption in collections on account of lockdowns during April and May 2021," Credit-Access Grameen MD & CEO Udaya Kumar Hebbat told FE.

P Satish, executive director, Sa-Dhan, said the RBI in April provided a special liquidity facility of ₹15,000 crore to Sidbi. "Providing a further special liquidity facility of ₹16,000 crore is more in terms of enabling Sidbi to finance more innovative types of activities," he said.

According to Satin Credit-care Network chairman & managing director HP Singh, the central bank's measures, such as the increase in limit of loans from ₹25 crore to ₹50 crore to small businesses and individuals under Resolution Framework 2.0, special liquidity facility to Sidbi and a separate liquidity window of ₹15,000 crore for contact intensive sectors, among others, will act as instruments spurring a rebound and strengthening India's momentum towards normalcy.

The RBI, however, has still not included the MFIs under Resolution Framework 2.0. MFIN had earlier urged the RBI to provide a "restructuring window" for MFIs by including them under the Resolution Framework, which would help them mitigate the impact of Covid. According to the industry body, in current circumstances, it will be challenging for the small and medium MFIs to continue repayment to their lenders as microfinance clients are unable to pay during lockdown.

"We were expecting that at least some announcement will be there from RBI on providing a moratorium from lenders to MFIs or some kinds of restructuring facility. Without these kind of measures it will become a major problem for MFIs to provide further loans to their clients going forward. But it has not come. So, in a way we are slightly disappointed," Satish said.

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous close.

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous close.

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous close.

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous close.

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous close.

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous close.

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous close.

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous close.

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous close.

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous close.

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous close.

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous close.

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous close.

BOFA SECURITIES EUROPE SA on Friday picked up 36.18 lakh shares of IndusInd Bank for ₹364 crore through a market transaction.

The shares were offloaded by UBS Principal Capital Asia.

According to block deal data available with the BSE, BofA Securities Europe SA purchased a total of 36,18,000 shares of the private sector lender.

The shares were purchased at an average price of ₹1,006, valuing the transaction at ₹363.97 crore.

As of March 2021, BofA Securities Europe SA (ODI) held a 3.2% stake in IndusInd Bank, while UBS Principal Capital Asia owned 1.24% holding in the bank, shareholding data with the BSE showed.

Earlier in January, BofA Securities Europe SA bought 39.50 lakh shares of the bank at ₹928 per share. In November 2020, it had purchased 32.64 lakh shares of IndusInd Bank from Goldman Sachs (Singapore) Pte (ODI) at ₹678.10 per share.

IndusInd Bank settled at ₹1,009.25 apiece on the BSE on Friday, up 0.34% from the previous close.

राजद्रोह कानून रद्द करने की मांग की एडीटर्स गिल्ड ने

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

‘एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ (ईजीआई) ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे पर उच्चतम न्यायालय के फैसला का शुक्रवार को स्वागत किया और ‘कठोर’ और ‘पुराने’ राजद्रोह कानूनों को रद्द करने की मांग की। उच्चतम न्यायालय ने एक यूट्यूब कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित टिप्पणियों के लिए दुआ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए गुरुवार को अपने फैसले में कहा था कि शीर्ष अदालत की 1962 की व्यवस्था के तहत राजद्रोह के मामलों में पत्रकारों को सुरक्षा का अधिकार है।

गिल्ड ने एक बयान में कहा, ‘ईजीआई स्वतंत्र मीडिया और हमारे लोकतंत्र पर राजद्रोह के कानूनों के कठोर असर पर उच्चतम न्यायालय की चिंताओं पर संतोष जताता है।’ इसमें कहा गया है, ‘गिल्ड

विनोद दुआ मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले को सराहा

अपराधिक शिकायत को न केवल रद्द किया बल्कि राजद्रोह के मामलों से पत्रकारों की सुरक्षा करने की महत्ता पर भी जोर दिया।

गिल्ड ने कहा कि केदार नाथ सिंह प्रकरण में 1962 में सुनाए गए फैसले का संदर्भ और राजद्रोह के आरोपों से पत्रकारों को सुरक्षा देने की जरूरत स्वागत योग्य है लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों ने जिस तरीके से कानून लागू किए, उसके चलते मुकदमा चलाए जाने से न्याय जेल में बंद कर दिया जाता है और उच्चतम न्यायालय को इसमें भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

खदान में जल स्तर बढ़ने से बचाव अभियान प्रभावित

शिलंग, 4 जून (भाषा)।

मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में एक खदान में पांच लोग अब भी फंसे हुए हैं। भारी बारिश के कारण जल स्तर एक मीटर और बढ़ जाने से बचाव अभियान में दिक्कतें हो रही हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस बारे में बताया।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने गुरुवार को कहा था कि 152 मीटर गहरे गड्ढे में जलस्तर 46 मीटर तक पहुंच गया है। जिला उपायुक्त ई खारमलकी ने बताया कि खदान के शाफ्ट के भीतर जलस्तर पहले की तुलना में एक मीटर बढ़ गया है। एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और दमकल सेवा के 100 बचावकर्मी वहां बचाव अभियान में तैनात हैं और कम से कम 10 मीटर पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं।

ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के जिला मुख्यालय खिलेरीअट से करीब 20 किलोमीटर दूर उमप्लेंग की खदान में रविवार को डायनामाइट विस्फोट के बाद पानी भर गया था। पिछले 24 घंटे में इलाके में लगातार बारिश के कारण 152 मीटर गहरे गड्ढे में जल स्तर बढ़ता गया। खारमलकी ने बताया कि फिलहाल एक पंप से पानी निकालने का काम जारी है।

चार टन अफीम डोडा चूरा जब्त, तस्कर गिरफ्तार

जयपुर, 4 जून (भाषा)।

राजस्थान पुलिस की सीआइडी (क्राइम ब्रांच) की टीम ने शुक्रवार को राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में चार टन से अधिक अफीम डोडा चूरा बरामद किया। यह चूरा एक ट्रक में गेहूं की फर्जी बिल्टी (रसीद) की आड़ में जोधपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सीआइडी क्राइम ब्रांच की मदद

पदार्थ तस्करों के विरुद्ध यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) रवि प्रकाश ने बताया, “सीआइडी क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई टोल नाका मंगलवाड़ पर की। डोडा चूरा गेहूं के कट्टों के नीचे छिपाकर चित्तौड़गढ़ से जोधपुर ले जाया जा रहा था। टीम द्वारा ट्रक की जांच की गई तो गेहूं था। पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सीआइडी क्राइम ब्रांच की मदद

अनिरुद्ध जगन्नाथ के सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा

नई दिल्ली, 4 जून (भाषा)।

सरकार ने मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के सम्मान में शनिवार को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का गुरुवार को निधन हो गया था।

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

(कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार मंजूर)

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के तहत

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

सोलोमन कंपनी लिमिटेड (CIN: U65999DL2014PTC265563)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 809, 8वीं मंजिल, अरुणाचल भवन 19, बाराखंबा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, के मामले में

हेमिस्फेर प्रॉपर्टीज़ इंडिया लिमिटेड
CIN: L70101DL2005GO132162
पंजीकृत कार्यालय का पता: कमरा नंबर 144, सी.वि. निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली 110001

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 29 तथा 47(1) (ए) के अनुपालन में एनद्राहा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 14 जून, 2021 को आयोजित होगी जिसमें अन्य बातों के अलावे 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर अभिलेख में लिए जाएंगे। यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट (www.hpic.co.in) तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।

दिनांक: 3.6.2021
स्थान: नई दिल्ली

हेमिस्फेर प्रॉपर्टीज़ इंडिया लिमिटेड के लिए हस्ता./-
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

शाखा के स्थान परिवर्तन की सूचना

आपको सूचित किया जाता है कि प्लॉट नंबर 35, फर्स्ट फ्लोर, और सागरक ब्लॉक, विकास मार्ग, शंकरपुर, मेट्रो पिलर नंबर 57 के सामने, दिल्ली-110092 में स्थित सेवा गृह रिन लिमिटेड की शाखा को स्थानांतरित किया जा रहा है और इसे 04-09-2021 से बंद कर दिया जाएगा। शाखा के नए स्थान के बारे में विवरण सूचित किया जाएगा।

सम्पर्क विवरण

नाम : श्री सदीप दीक्षित (शाखा प्रबंधक)	सम्पर्क 9999884474	ई-मेल sandeep.d@sgrlimited.in
--	--------------------	-------------------------------

सेवा गृह ऋण लिमिटेड
सीआईएन: U65923DL2011PLC222491
पंजीकृत कार्यालय: 206-207, द्वितीय तल, विक्रम टावर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

fincare Registered Office: 301-306, 3rd Floor, ABHJEET -V, Opp. Mayor's Bungalow, Law Garden Road, Mithakhali, Ahmedabad - 380006, Gujarat. www.fincarebank.com

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON 'AS IS WHERE IS' BASIS

The below mentioned borrower/s has/have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from Fincare Small Finance Bank Ltd ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles as per below schedule.

Loan Account no	Name of the borrower	Auction Venue	Auction Date
20660000294280	ANKUSH DUJA	BP NO.49, GROUND FLOOR,NELAM BATA ROAD, NEAR GRANDDEELTA HOTEL, NIT, FARIDABAD - AC NAGAR - 121001	10-06-2021
20660000492987	GHAN SHYAM		
206600002298512	MUKESH		
20660000301309	JATIN VERMA	GROUND FLOOR, SCO NO. 11 & 12, SECTOR-15, PART-II, NEAR HOTEL GALAXY, GURUGRAM - 122003	10-06-2021
20660000276684	KAPIL KUMAR		
206600003036070	NARAIN DASS		
20660000267221	RAJ SINGH		
20660000499204	SUNIL KUMAR		
20660000476258	VINAYKUMAR		
20660000235378	VINOD KUMAR		
206600002259447	YOGESH YADAV		
20660000311560	DEEPAK BHATI	GROUND FLOOR, SHOP NO.10, SEC-10-A, KHANDASA ROAD, GURUGRAM - 122001	10-06-2021
20660000454940	PARDEEP		
20660000307578	POOJA DEVI		
206600004096720	RAVI SHANKER		
206600002293831	RAVI SINGH SISOONIA		
206600002296744	SAVITRI		

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात-362266

शाखा कार्यालय : डी-17, सेक्टर-3, नोएडा

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) (अधिनियम) के तहत मांग सूचना

5 जून, 2021

क्र.सं.	कर्जदार (क) के नाम तथा पता	सम्पत्ति का विवरण (ख)	ऋण राशि (रु.) (ग)	ऋण खाता सं. (घ)	बकाया राशि (रु.) (ङ)	सूचना तिथि (च)	एनपीए तिथि (छ)
19.	1. जसवंत सिंह, मकान नं. 16, सेक्टर-15-ए, फरीदाबाद, हरियाणा, एस्कॉर्ट नगर, फरीदाबाद, एस.ओ. फरीदाबाद, हरियाणा-121007 साथ ही : आर-104, प्रथम तल, टॉवर-आर, रिजॉर्ट,सेक्टर-75, ग्राम मिर्तनजपुर, फरीदाबाद, पाली, बी.05, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत-121004 2. मैसर्स मलिक ट्रेडर्स, प्लॉट नं. 87, सेक्टर-6, फरीदाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद, सेक्टर 7 एस.ओ., फरीदाबाद, हरियाणा-121006 3. संजीव जसवंत सिंह, मकान नं. 16, सेक्टर-15-ए, फरीदाबाद, हरियाणा, एस्कॉर्ट नगर, फरीदाबाद, एस.ओ. फरीदाबाद, हरियाणा-121007	सम्पत्ति आर-104, प्रथम तल, टॉवर-आर, रिजॉर्ट,सेक्टर-75, ग्राम मिर्तनजपुर, फरीदाबाद, पाली, बी.05, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत-121004 का सम्पूर्ण भाग	रु. 4929000/-	LNDELHL - 12170041111 तथा LNDELHL - 12170031308	रु. 4,988,377.00/- (रुपये उन्नास लाख अठ्ठासी हजार तीन सौ सहस्र मात्र) 3 मई, 2021 तक बकाया मूलधन, परिचा (विलम्ब प्रभार सहित) तथा व्याज के माध्यम से	27-मई-21	30-अप्रैल-21
20.	1. अली मुकदर, म.नं. 138, एन ब्लॉक, सुन्दर नगरी, नन्द नगरी, सुन्दर नगरी, एस.ओ. उत्तरी परिचमी दिल्ली, दिल्ली-110093 साथ ही : अपर ग्राउण्डफ्लोर, छत के अधिकार सहित, प्लॉट सं. यूजी-3, प्लॉट सं. बी-1/147, ब्लॉक बी-1, ग्राम बरहामपुर (भोपुर), परगना लोनी, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-2, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201001 2. सक्तीना बेगम, म.नं. 138, एन ब्लॉक, सुन्दर नगरी, नन्द नगरी, सुन्दर नगरी, एस.ओ. उत्तरी परिचमी दिल्ली, दिल्ली-110093	सम्पत्ति अपर ग्राउण्डफ्लोर, छत के अधिकार सहित, प्लॉट सं. यूजी-3, प्लॉट सं. बी-1/147, ब्लॉक बी-1, ग्राम बरहामपुर (भोपुर), परगना लोनी, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-2, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201001 का सम्पूर्ण भाग	रु. 1360000/-	LNDELOHL- 08180010646 तथा LNDELOHL- 08180010644	रु. 1,124,517.00/- (रुपये ग्यारह लाख चौबीस हजार पांच सौ सहस्र मात्र) 3 मई, 2021 तक बकाया मूलधन, परिचा (विलम्ब प्रभार सहित) तथा व्याज के माध्यम से	27-मई-21	30-अप्रैल-21
21.	1. अमरजीत सिंह, मकान नं. जे 98, 99, बेरीवाला हरी नगर, माया पुरी दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110064 साथ ही : प्लॉट नं. 138, इंडेन सिटी, खेवट सं. 249, खतौनी नं. 253, खसरा नं. 972/1 (44), हदबल सं. 183, प्लॉट नं. 138, इंडेन सिटी, वाक्या खानपुर, तहसील खार, जिला एस.ए.एस. नगर, खार एस.ओ. (रूपनगर), रूपनगर, पंजाब, भारत-140301 2. मनप्रीत कौर, मकान नं. जे 98, 99, बेरीवाला हरी नगर, मायापुरी, दक्षिणी-पश्चिमी दिल्ली, हरी नगर एस.ओ. (पश्चिमी दिल्ली), पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110064	सम्पत्ति प्लॉट नं. 138, इंडेन सिटी, खेवट सं. 249, खतौनी नं. 253, खसरा नं. 972/1 (44), हदबल सं. 183, प्लॉट नं. 138, इंडेन सिटी, वाक्या खानपुर, तहसील खार, जिला एस.ए.एस. नगर, खार एस.ओ. (रूपनगर), रूपनगर, पंजाब, भारत-140301 का सम्पूर्ण भाग	रु. 1938618/-	LNZKPOHL- 11180014312	रु. 9,48,027.00/- (रुपये नौ लाख अड़तालीस हजार सत्तासी मात्र) 3 मई, 2021 तक बकाया मूलधन, परिचा (विलम्ब प्रभार सहित) तथा व्याज के माध्यम से	27-मई-21	30-अप्रैल-21

जैसा कि आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसका ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय है (यहाँ के बाद 'एबीएचएफएल' वर्णित) ने क्रमशः क्रम सं. 19 से क्रम सं. 21 के माध्यम से उक्त प्रत्येक ऋणधारकों के नाम के समक्ष कालम घ में वर्णित ऋण खाता सं. के माध्यम से कालम ग में लिखित पृथक साख सुविधा कालम क में वर्णित उक्त नामित ऋणधारकों को प्रदान किया था। उक्त साख सुविधाएं अन्य बातों के अलावे प्रत्येक ऋणधारक के नाम के समक्ष लिखित अचल सम्पत्ति पर गिरवी द्वारा प्रतियुक्त है (यहाँ के बाद 'प्रतियुक्त परिसम्पत्ति' वर्णित)। कि, ऊपर नामित ऋणधारक ऋण खाता के वित्तीय अनुशासन को कायम रखने